

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 55] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 1980/फाल्गुन 17, 1901

No. 55] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 1980/PHALGUNA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1980

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 78(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 188क/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 नवम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अभिसूचना में, “नायलोन धागे को, जिसकी बाबत कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि वह मत्स्य जालों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित है” शब्दों के स्थान पर, “4 प्रतिशत सह्यता वाले 210 डेनियर वाले नायलोन धागे को, जिसकी बाबत कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया है कि वह मत्स्य जालों के विनिर्माण या मरम्मत या दोनों में प्रयोग के लिए आशयित है” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[अभिसूचना संख्या 11ए/80 के उ-फा सं. 50/4/78-सी एक्स-2]

डी. मेहता, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 188A/62-Central Excises, dated the 3rd November, 1962, namely :—

In the said notification, for the words “nylon yarn proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise to be meant for use in the manufacture of fishing nets”, the words and figures “nylon yarn of 210 deniers with tolerance of 4% proved to the satisfaction of the Collector of Central Excise to be meant for use in the manufacture, or repair, or both, of fishing nets” shall be substituted.

[Notification No. 11A/80-CE-F. No. 50/4/78-CX. 2]

D. MEHTA, Under Secy.